



The map illustrates the proposed route for the Odisha Sahitya Akademi Award. The route is marked with a blue line and connects various districts and towns. It starts at Remuna in Balasore, passes through Khantapada, Soro, Jamunhadi, Markona, Ramanja, Charampa, Bhadrak, Nalanga, Bhandari, Dhamanagar, Asurali, Tihidi, Bideipur, Balimunda, Baincha, Karanjamal, Damanpur, and ends at Khurunti in Khurda. The map also shows the Kuldiha Wildlife Sanctuary and various other towns and roads.

**Total distance:122Km;Start:(21.494448,86.848465),End: (20.957867,86.051704)**

# Welcome to the Journey Risk Management Study

भारी वाहन चालकों के लिए सुरक्षा विश्लेषण और दिशा-निर्देश रिपोर्ट

ଭାରୀଯାନଚାଳକଙ୍କପାଇଁସୁରକ୍ଷାବିଶ୍ଳେଷଣଏବଂମାର୍ଗଦର୍ଶନରିପୋର୍ଟ

## 1. मार्ग विवरण

### 1. रास्ता वर्णन

यह रिपोर्ट किसी भी भारी वाहन परिवहन मार्ग पर लागू होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सड़कें, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, और विभिन्न भूभाग शामिल हो सकते हैं।

ଏହିରିପୋର୍ଟଯେକୌଣସିଭାରୀଯାନପରିବହନମାର୍ଗପାଇଁପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେବିଭିନ୍ନପ୍ରକାରରସଡ଼କ, ଗ୍ରାମୀଣଏବଂସହରାଞ୍ଚଳଏବଂବିଭିନ୍ନଭୂଖଣ୍ଡଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତହୋଇପାରେ।

- कुल दूरी: परिवहन योजना के अनुसार।
- मोटरदूरी: परिवहनयोजनाअनुसार।
- अनुमानित यात्रा समय: सड़क की स्थिति, दूरी और यातायात के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।
- आनुमानिकयात्रासमय: रास्ताअवस्था, दूरताएवंचार्जिक्छपरेनिर्भरकरेलेहोइसके।

## 2. सामान्य मौसम की स्थिति और संभावित खतरे

### 2. ସାଧାରଣପାଗପରିସ୍ଥିତିଏବଂସମ୍ଭାବ୍ୟବିପଦ

मौसम के अनुसार जोखिम:

ପାଗଅନୁସାରେବିପଦ:

- गर्मी में: अत्यधिक गर्मी, हीट स्ट्रोक, इंजन का ज़्यादा गर्म होना।
- ଶ୍ରୀଷ୍ଟରତ୍ନରେ: ଅତ୍ୟଧିକଗରମ, ହିଟ୍‌ସ୍ଟ୍ରକ, ଇଞ୍ଜିନ୍‌ଅଧିକଗରମହେବା।
- मानसून में: फिसलन भरी सड़कें, जल भराव, दृश्यता में कमी, बाढ़।
- ମନିସୁନରେ: ଖସିପଡ଼ିବାରାସ୍ତା, ଜଳବନ୍ଧ, ଦୃଶ୍ୟଶକ୍ତିକମ, ବନ୍ୟା।
- सर्दी में: कोहरा, पाला, बर्फ (विशेष करपहाड़ी इलाकों में)।
- ଶୀତକାଳ: କୁହୁଡ଼ି, ତୁଷାରପାତ, ତୁଷାରପାତ (ବିଶେଷକରିପାହାଡ଼ିଆଅଞ୍ଚଳରେ)।

### संभावित खतरे:

#### ସମ୍ଭାବ୍ୟବିପଦ:

- दृश्यता में कमी।
- ଦୃଶ୍ୟମାନତାହ୍ରାସ।
- फिसलन और भूस्खलन।
- ସ୍ଲୋପରଏବଂଭୂସ୍ଥଳନ।
- अचानक मौसम परिवर्तन।

- ହଠାତ୍ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ।

### 3. यातायात पैटर्न का विश्लेषण

### 3. ଗ୍ରାଫିକ୍‌ସ ଆରବିଶ୍ଳେଷଣ ।

- **पीक टाइम:** सुबह 8-10 बजे और शाम 5-7 बजे।
- **ସର୍ବାଧିକସମୟ:** ସକାଳ 8-10 ଏବଂସନ୍ଧ୍ୟା 5-7।
- **शहरी क्षेत्र:** ट्रैफिक जाम और रुकावट की संभावना अधिक।
- **ସହରାଞ୍ଚଳ:** ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁଏବଂବାଧାୟୁଷ୍ଣହେବାରସମ୍ଭାବନାଅଧିକ।
- **त्योहार/विशेष आयोजन:** ट्रैफिक अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकता है।
- **ପର୍ବପର୍ବାଣୀ / ବିଶେଷକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:** ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁପ୍ରତିଯୋଗିତାଭାବରେବୃଦ୍ଧିପାଇପାରେ।

#### 4. सड़क की गुणवत्ता और बुनियादी ढाँचा

#### 4. ରାସ୍ତା ରଗୁଣ ବର୍ତ୍ତାବଦଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି

- . कुछ हिस्सों में सड़कें अच्छी स्थिति में होती हैं (संकेत व मार्किंग सहित)।
- . किଛିझानेरराष्ट्रागुट्टिकभलथवझाेरथळि (घालनकाव°ठिध्रप्रहृठ)।
- . अन्य हिस्सों में गड्ढे, खराब सतह या मरम्मत की आवश्यकता हो सकती है।
- . थनपानपथ°षोरगाठ, श्रुतिग्रन्थपृष्ठयाळपाेरकिद्यानरामठियावक्षपकछाळपाेर।
- . राज मार्ग/बाई पास: अच्छी गुणवत्ता और सुविधाएं।
- . रालपय/वालपाय् : भलगुणवठाव°धूविथा।
- . ग्रामीण क्षेत्र: संकरी और कच्ची सड़कें संभव।
- . गुणाल : घ°कावृ°व°ककाराष्ट्राधम्व।

## 5. आपात कालीन स्थिति के लिए वैकल्पिक मार्ग

## 5. ଜରୁରୀକାଳୀନପରିସ୍ଥିତିରେବିକଳ୍ପରାସ୍ତା

- . यात्रा से पहले वैकल्पिक मार्गों की योजना बनाएं।
- . यात्रा करीवा घूर्व रूवि कञ्च राश्ट्रा यो जना कर छु।
- . राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग अक्सर बेहतर विकल्प होते हैं।
- . जाता म् एव° राज्य राजपथ प्रामुख्य लक्षि कञ्च होइ पावे।
- . जी-पी-एस और ट्रैफिक अपडेट्स का उपयोग करें।
- . द्वितीय एव° छात्रि कथ पठे च्छाप वहा रकर छु।

## 6. स्थानीय नियमों का सारांश

## 6. ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟମର ପ୍ରାଂଶ

- परमिट: खतरनाक सामग्री के लिए विशेष परमिट अनिवार्य।
- ଅନୁମତିପତ୍ର: ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣସାମଗ୍ରୀପାଇଁଆବଶ୍ୟକସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଅନୁମତିପତ୍ର।
- समय प्रतिबंध: कुछ क्षेत्रों में भारी वाहनों के लिए समय-सीमा।
- ସମୟସୀମା: କିଛିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଅଞ୍ଚଳରେଭାରୀଯାନବାହନପାଇଁସମୟସୀମା।
- गति सीमा: निर्धारित सीमा का सख्ती से पालन करें।
- ଗତିସୀମା: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତସୀମାକୁକଢ଼ାକଢ଼ିପାଳନକରନ୍ତୁ।
- स्थानीय नियम: पार्किंग, हॉर्नब जाना, ओवर टेकिंग आदि।
- ସ୍ଥାନୀୟନିୟମ: ପାର୍କିଂ, ହର୍ଣ୍ଣବଜାଇବା, ଓଭରଟେକିଂଆଦି।
- ସ୍ଥାନୀୟନିୟମ: ପାର୍କିଂ, ହର୍ଣ୍ଣବଜାଇବା, ଓଭରଟେକିଂଆଦି।

7. ऐतिहासिक घटनाओं का अवलोकन

7. ଇତିହାସିକଘଟଣାବଳୀରଅବଲୋକନ

- दुर्घटनाएं मानसून के समय अधिक होती हैं।
- ବର୍ଷାଋତୁରେଦୁର୍ଘଟଣାଅଧିକହୁଏ।
- तेज गति, लापरवाही और खराब सड़कें प्रमुख कारण हैं।
- ଦ୍ରୁତଗତି, ଅସାବଧାନତାଏବଂଖରାପରାସ୍ତାହେଉଛିପ୍ରମୁଖକାରଣ।
- खतरनाक सामग्री से जुड़े रिसाव और पलटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं।
- ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣସାମଗ୍ରୀସହିତସମ୍ପର୍କିତଘଟଣାଓଭଲଟିଯିବାଘଟଣାମାନେରେକର୍ଡକରାଯାଇଛି।

8. पर्यावरणीय विचार और संवेदनशील क्षेत्र

8. ପରିବେଶଗତବିଚାରଏବଂସଂବେଦନଶୀଳକ୍ଷେତ୍ର

- कुछ मार्ग राष्ट्रीय उद्यानों या घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरते हैं।
- କିଛିରାସ୍ତାଜାତୀୟଉଦ୍ୟାନକିମ୍ବାଘନଜନବସତିଅଞ୍ଚଳଦେଇଯାଇଥାଏ।
- इन क्षेत्रों में:
- ଏହିଅଞ୍ଚଳମାନେରେ:
- गति सीमा का पालन करें।
- ଗତିସୀମାଅନୁସରଣକରନ୍ତୁ
- कचरा न फैलाएं।
- ଅଳିଆଆବର୍ଜନାବିସ୍ତାରକରନ୍ତୁନାହିଁ।
- ध्वनि और वायु प्रदूषण से बचें।
- ଶବ୍ଦଏବଂବାୟୁପ୍ରଦୂଷଣକୁବିଚାରକରନ୍ତୁ।

9. संचार कवरेज का विश्लेषण

9. ଯୋଗାଯୋଗକଭରେଜରବିଶ୍ଳେଷଣ

- शहरों के पास संचार कवरेज अच्छा होता है।
- ସହରଗୁଡ଼ିକରେଭଲଯୋଗାଯୋଗବ୍ୟବସ୍ଥାଅଛି।



- दूर दराज क्षेत्रों में नेटवर्क कमजोर या अनुपलब्ध हो सकता है।
- दूरदूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क का उपयोग करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- वैकल्पिक संचार जैसे सैटेलाइट फोन का विकल्प रखें।
- वाहन के लिए बैकअप बैटरी और चार्जर के साथ यात्रा करें।

## 10. आपात कालीन प्रतिक्रिया समय का अनुमान

### 10.1 आपात कालीन प्रतिक्रिया समय का अनुमान

- शहरी क्षेत्र: 15-30 मिनट।
- ग्रामीण क्षेत्र: 30-60 मिनट।
- ग्रामीण क्षेत्र: 45 मिनट से अधिक लग सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्र: 45 मिनट से अधिक लग सकता है।
- दुर्घटना या आपातस्थिति में निकटतम सहायता से संपर्क करें।
- दुर्घटना या आपातस्थिति में निकटतम सहायता से संपर्क करें।

## 11. जोखिम आकलन का समग्र सारांश

### 11.1 जोखिम आकलन का समग्र सारांश

#### सावधानी के मुख्य बिंदु:

#### संकेत और चेतावनी:

- मौसम की स्थिति पर ध्यान दें।
- वाहन के स्थिति पर ध्यान दें।
- सड़क की गुणवत्ता को ध्यान में रखें।
- सड़क के बाधाओं का ध्यान रखें।
- ट्रैफिक पैटर्न का विश्लेषण करें।
- वाहन के स्थिति पर ध्यान दें।
- संचार सीमाओं से अवगत रहें।
- संचार सीमाओं से अवगत रहें।
- स्थानीय नियमों का पालन करें।
- स्थानीय नियमों का पालन करें।

निष्कर्ष: कोई भी मार्ग मध्यम से उच्च जोखिम वाला हो सकता है, लेकिन सही तैयारी और सतर्कता से यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सकता है।

उपसंहार: यात्रा के दौरान सतर्कता और सावधानी से यात्रा करें, ताकि आप सुरक्षित और आराम से यात्रा कर सकें।

किसी भी भी मार्ग मध्यम से उच्च जोखिम वाला हो सकता है, लेकिन सही तैयारी और सतर्कता से यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सकता है।

## डाइवर्स के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और आवश्यक जानकारी

### डाइवर्स के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और आवश्यक जानकारी

## सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश

### ନିରାପଦ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

1. वाहन की जाँच: टायर, ब्रेक, लाइट, हॉर्न, इंजनऑयल, ईंधन।  
ବାହାନଯାଞ୍ଚ: ଟାୟାର, ବ୍ରେକ୍, ଲାଇଟ୍, ହର୍ନ୍, ଇଞ୍ଜିନଓଏଲ୍, ଇନ୍ଧନ।
2. कागजात: ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, पंजीकरण, परमिट साथ रखें।  
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍: ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ବୀମା, ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପରମିଟ୍ ସହ ରଖନ୍ତୁ।
3. सुरक्षा उपकरण: फर्स्ट एड किट, रिफ्लेक्टिव ଜੈकेट, त्रिकोण, फायर एक्सटिंग्विशर, औजार।  
ସୁରକ୍ଷାଉପକରଣ: ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କିଟ୍, ପ୍ରତିଫଳିତ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ତ୍ରିଭୁଜ, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ, ଉପକରଣ।
4. गति सीमा: तेज़ गति से बचें।  
ଗତି ସୀମା: ଚିତ୍ରଗତିରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
5. सुरक्षित दूरी: हमेशा आगे वाले वाहन से दूरी बनाए रखें।  
ନିରାପଦ ଦୂରତା: ସର୍ବଦା ଆଗରେ ଥିବା ଯାନ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
6. थकान से बचाव: नींद आने पर तुरंत ब्रेक लें।  
କ୍ଲାଡିରୁ ସୁରକ୍ଷା: ଘୁମିଆସିଲେ ସତର୍କତା ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଅବକାଶ ନିଅନ୍ତୁ।
7. नशे से परहेज: शराब/नशे की स्थिति में वाहन न चलाएं।  
ମଦପାନରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ: ଶରାବ/ନଶେର ସ୍ଥିତିରେ ବାହାନ ଚାଲିବାକୁ ନାହିଁ।
8. मौसम सतर्कता: कोहरा/बारिश में धीमी गति से चलें, लाइट चालू रखें।  
ପାଣିପାଗ ସତର୍କତା: କୁହୁଡି/ବର୍ଷାରେ ଧୀର ଗତି ଚାଲିବାକୁ, ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ।
9. ओवर टेकिंग: तभी करें जब सामने से कोई वाहन न आ रहा हो।  
ଓଭରଟେକିଂ: ଯେତେବେଳେ ସାମନାରେ କୌଣସି ଯାନ ଆସୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏହା କରନ୍ତୁ।
10. सड़क संकेत: सभी ट्रैफिक साइन का पालन करें।  
ରାସ୍ତା ସଙ୍କେତ: ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଙ୍କେତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ।
11. मोबाइल का प्रयोग: ड्राइविंग के समय न करें।  
ମୋବାଇଲ୍ ଲ୍ୟୁହ୍ମ୍ୟବହାର: ଗାଡି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଏହା କ୍ୟୁବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
12. खतरनाक माल: विशेष सतर्कता और सुरक्षा प्रक्रिया अपनाएं।  
ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ: ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।
13. आपात कालीन नंबर: पुलिस, एम्बुलेंस और कंपनी के नंबर फोन में सेव रखें।  
ଜରୁରୀ କାଳୀନ ନମ୍ବର: ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ପୋଲିସ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ।

## यात्रा की तैयारी

### ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି

- मार्ग योजना: विश्राम स्थल, पेट्रोल पंप, बाधाएं शामिल करें।

ମାର୍ଗଯୋଜନା: ବିଶ୍ରାମସ୍ଥାନ, ପେଟ୍ରୋଲପମ୍ପ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକଅବରୋଧକରନ୍ତୁ।

- ଜି-ପି-ଏସ/ମାନଚିତ୍ର: ନେଭିଗେସନ ମେଁ ସହାୟତା ଲେଁ।

ଜିପିଏସ/ନକ୍ସା: ନେଭିଗେସନରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ।

- ମୌସମ ଅପଡେଟ: ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଖ କର ଯୋଜନା ବନାଏଁ।

ପାଣିପାଗଅପଡେଟ: ପୂର୍ବାନୁମାନଯାଞ୍ଚକରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ।

- ସଂଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା: ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ରଖି, ବୈକଅପ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜି।

ସଞ୍ଚାରବ୍ୟବସ୍ଥା: ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ, ବ୍ୟାକଅପ୍ କଲ୍ ସେଟିଂଗ୍ସ କରନ୍ତୁ।

- ସ୍ଥାନୀୟ ଜାଣକାରୀ: ପ୍ରତିବନ୍ଧି ଓ ବିଶେଷ ନିୟମ ଖୋଜି।

ସ୍ଥାନୀୟ ସୂଚନା: ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ।

- ରିପୋର୍ଟିଂ: କିସି ମଧ୍ୟ ଖତରା ଓ ଦୁର୍ଘଟନା କୁ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କର।


ରିପୋର୍ଟିଂ: ଯେକୌଣସି ବିପଦ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ରେପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।

---

ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହମାରି ପ୍ରାଥମିକତା ହେଁ। ସାବଧାନି ସେ ଚଲି, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଁ ଓ ଯାତାଯାତ ନିୟମ ଖାଲି କର।

ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପ୍ରାଥମିକତା। ସତର୍କତା ର ସହଗାତି ଚାଲି କରନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି କରନ୍ତୁ।

**RISK ZONES**





ZONE	RISK LEVEL	REQUIREMENT SPEED
RED	HIGH RISK	10-15Km/Hr
YELLOW	MEDIUM RISK	25-30Km/Hr
GREEN	LOW RISK	45-50Km/Hr

# RISK ASSESSMENT – SHARP TURNS

Risk Type	Risk Level	Coordinates	Recommended Speed	Distance
RIGHT TURN	HIGH	21.4945848,86.8484838	10-15 Km/Hr	0.1 Km
LEFT TURN	HIGH	21.4462554, 86.8320369	10-15 Km/Hr	6.5 Km
RIGHT TURN	HIGH	21.4360667,86.8434539	10-15 Km/Hr	8 Km
EXIT HIGHWAY	MEDIUM	20.9178679,86.234946	25-30 Km/Hr	99.8 Km
RIGHT TURN	MEDIUM	20.9145927,86.2287629	25-30 Km/Hr	101 Km
RIGHT TURN	HIGH	20.9348864,86.1683686	10-15 Km/Hr	107 Km
STRAIGHT	LOW	20.9722329,86.1247008	45-50 Km/Hr	114 Km
RIGHT TURN	HIGH	20.9642604,86.085287	10-15 Km/Hr	118 Km
LEFT TURN	HIGH	20.957867, 86.051704	10-15 Km/Hr	124 Km



IMAGE: **RIGHT TURN**; RISKLEVEL: **HIGH**; COORDINATES: **21.4945848, 86.8484838**  
(0.5Km)




IMAGE: **LEFT TURN**; RISKLEVEL: **HIGH**; COORDINATES: **21.4462554, 86.8320369**  
(6.5Km)






IMAGE: **RIGHT TURN**; RISKLEVEL: **HIGH**; COORDINATES: **21.4360667,86.8434539**  
(8Km)



IMAGE: **EXIT HIGHWAY**; RISKLEVEL: **MIDIUM**; COORDINATES: **20.9178679,86.234946**  
(99.8Km)



IMAGE: **RIGHT TURN**; RISKLEVEL: **MEDIUM**; COORDINATES: **20.9145927,86.2287629**  
(101Km)




IMAGE: **RIGHT TURN**; RISKLEVEL: **HIGH**; COORDINATES: **20.9348864,86.1683686**  
(107Km)






IMAGE: **STRAIGHT**; RISKLEVEL: **LOW**; COORDINATES: **20.9722329,86.1247008**  
(114Km)




IMAGE: **RIGHT TURN**; RISKLEVEL: **HIGH**; COORDINATES: **20.9642604,86.085287**  
(118Km)




IMAGE: **LEFT TURN**; RISKLEVEL: **HIGH**; COORDINATES: **20.957867, 86.051704**  
(124Km)

The comprehensive Journey Risk Management (JRM) study has provided an in-depth analysis of the route from start to end, highlighting critical risk points, recommended speeds, and potential hazards. By leveraging advanced technologies and data-driven insights, this report aims to enhance safety and preparedness for hazardous material transportation, ensuring a secure and efficient journey.